



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/Weekly

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 28—सितम्बर 3, 2004 (भाद्रपद 6, 1926)

No. 35]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 28—SEPTEMBER 3, 2004 (BHADRA 6, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग 1—खण्ड 4

PART I—SECTION IV

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से
सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय
(थल सेना विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 अगस्त 2004

सं. 432, दिनांक 4 अगस्त 2004--थल सेना अनुदेश 37/78 व थल
सेना अनुदेश 4/96 द्वारा उसमें जारी संशोधन के अन्तर्गत राष्ट्रपति, सहर्ष
निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :-

नियमित सेना
सैनिक दत्त धिक्तरा कोर
(स्वाई कमीशन)

लैफ्ट. कर्नल से कर्नल के पद पर

बाई सी मिश्रा (डी आर-10308एफ), 28 जुलाई 2003

परन्तु वैकल्पिक बरिष्ठता 11.12.2000 से दी जाती है जोकि वेतन
और भत्ते पर प्रभावी नहीं होगी।

थल सेना अनुदेश 15/79 व थल सेना अनुदेश 10/02 द्वारा उसमें जारी
संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति 05 वर्ष के लिए
करते हैं :-

अर्द्ध स्वाई कमीशन
लैफ्ट. के पद पर (परब पर)

परबिन्दु शर्मा (डी एस-12114एफ), 19 फरवरी 2004

ज्योतिन्द्र गुगलानी (डी एस-12115ए), 24 फरवरी 2004

अनिल कुमार एस (डी एस-12116एफ), 25 फरवरी 2004

आशीष कम्बोज (डी एस-12117एल), 25 फरवरी 2004

प्रमोद ठडगानी (डी एस-12118एन), 03 मार्च 2004

आलोक कुमार (डी एस-12119डब्ल्यू), 05 मार्च 2004

सतीश टी एस (डी एस-12120एल), 05 मार्च 2004

सैयद मीलाना (डी एस-12122डब्ल्यू), 08 मार्च 2004

रमवीर सिंह आहूजा (डी एस-12123आई), 08 मार्च 2004

वरमजीत सिंह
मेजर जनरल
ए डी जी डी एस

अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 433, दिनांक 29 जुलाई 2004--राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित
सहायकों की सीमित विभागीय प्रतिबोधी परीक्षा-2002 उत्तीर्ण करने पर

30 अप्रैल 2004 से. स. से. मु. सिविल सेवा में अनुभाग अधिकारियों के रूप में नियुक्त करते हैं :--

श्री एम. एस. सिंह

श्री वी. के. श्रीवास्तव

श्री सी. एस. धस्माना

(प्राधिकार ए/47959/एल डी सी ई-02/एस ओ/मु प्र अ/का-1/18 दिनांक 30 अप्रैल 2004)

सन्तोष दासगुप्ता

उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (प्रशा.)

नौसेना शाखा

सं. 434, दिनांक 3 अगस्त 2004--राष्ट्रपति द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एम एफ/1822/डी ई एस/खण्ड-IV/03 दिनांक 08 अप्रैल 2003 के अधीन भारतीय नौसेना की विद्युत शाखा में सीधी भर्ती योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं।

सब-ले. के रैंक में परखाधीन

सीधी भर्ती योजना

नाम निजी संख्या कमीशन की किस्म कमीशन की तिथि
बराई संजय (51840टी), अल्पकालीन, 07 जनवरी 2002
आहूजा हितांशु (51841डब्ल्यू), अल्पकालीन, 07 जनवरी 2002
घोष सुदीप (51843जैड), अल्पकालीन, 07 जनवरी 2002
पोल राकेश (51844ए), अल्पकालीन, 07 जनवरी 2002
फर्नांडीज जार्ज जेसूरज (51846एफ), अल्पकालीन, 07 जनवरी 2002

बेइस अनुराग सिंह (51849एन), अल्पकालीन, 07 जनवरी 2002
राज विकास (51850आर), अल्पकालीन, 07 जनवरी 2002
एन एस श्रीनिवासन (51851टी), अल्पकालीन, 07 जनवरी 2002
वासु प्राजीश एम (51854जैड), अल्पकालीन, 07 जनवरी 2002
बालाजी प्रदीप (51855ए), अल्पकालीन, 07 जनवरी 2002

अनिल कुमार

कमांडर

जेडीएमपीआर (आर एण्ड आर)

(थल सेना विभाग)

सं. 435, दिनांक 4 अगस्त 2004--थल सेना अनुदेश 15/79 व थल सेना अनुदेश 10/02 द्वारा उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

सैनिक हस्त चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन कमीशन)

कैप्टन से अर्द्धस्थायी मेजर के पद पर

अमित आहूजा (डी एस-12004एच), 27 फरवरी 2004

सोनाली सहाय (डी एस-12009एफ), 11 मार्च 2004

बागी खुराना (डी एस-12011आई), 16 मार्च 2004

परमजीत सिंह

मेजर जनरल

ए डी जी डी एस

सं. 436, दिनांक 3 अगस्त 2004--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--

स्थायी कमीशन

ब्रिगेडियर (व समकक्ष) से मेजर जनरल (व समकक्ष) के पद पर
एल पी सधोत्रा (एम आर-3158एन), 14 जनवरी 2004

(वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01.10.03 से दी जाती है)

योगेन्द्रा सिंह (एम आर-2475एच), 16 फरवरी 2004

(वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01.12.03 से दी जाती है)

एच के मैनी (एम आर-2282एच), 01 जुलाई 2003

एम श्रीवास्तवा

ब्रिगेडियर

उप म.नि.स.से.वि. सेवा (पी)

सं. 437, दिनांक 2 अगस्त 2004--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

मेजर से ले. कर्नल के मूल रैंक में (चयन द्वारा)

एच थोम्पसन (आई सी-38538), ईएमई, 31 दिसम्बर 2000

जे बी गोखले (आई सी-38540), सिग्नल, 31 दिसम्बर 2000

एस के मिश्रा (आई सी-40277), ईएमई, 31 दिसम्बर 2000

एस विक्टर (एस एल-2581), एसएल (आर ओ), 31 दिसम्बर 2000

शशि शंकर सिन्हा

उपनिदेशक सेना सचिव

सं. 438, दिनांक 3 अगस्त 2004--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान से मेजर

आई सी नं., नाम व आर्म

जी के रजनीश (46423), ईएमई, 27 अक्टूबर 2002

(परन्तु वेतन व भत्ते दिनांक 27.10.2003 से देय)

विनय मल्होत्रा (51149), इन्फैन्ट्री, 13 जून 2002

सुशील शर्मा (49819), एमएफ, 09 जून 2002

प्रीत कनवाल सिंह घुमन (52265), एओसी, 12 जून 2003

आई सी नं., नाम एवं आर्म

इबेन जेरी सिमन (52367), ईएमई, अजय कुमार शर्मा (52420),
इन्फैन्ट्री, 11 दिसम्बर 2003

भानु मिश्रा (54708), इन्ट, 06 नवम्बर 2002

अरुण कुमार बाबू (52332), इजीनियर्स, 13 मई 2003

शंकर गोपीनाथन (51551), इन्ट, 19 दिसम्बर 2002

सुधीर पराशर (54742), आर्टी, 06 नवम्बर 2003

विवेक सावनगाउड़र (55334), ईएमई, 11 मई 2004

शिवेश कुमार (55519), सिग्नल्स, 09 मई 2004

शिव कुमार सिंह (55527), सिग्नल्स, 09 मई 2004

सुखजिन्दर सिंह (45964), एएससी, 24 अप्रैल 1998

प्रदीप कार (54606), सिग्नल्स, 12 जून 1999

पंकज दुग्गल (56753), एओसी, 07 दिसम्बर 2000

अतुल पॉल (56807), आर्टी, 07 दिसम्बर 2000

अंकुश कोहली (57804), सिग्नल्स, 13 जून 2000

डब्ल्यू एस नं., नाम एवं आर्म

रूपिका सेंगार (00400), सिग्नल्स, भाग्येश्वरी इटल्ली (00424),
इन्जिनियर्स, जोशी बल्लरी अन्ना (00428), ईएमई--07 सितम्बर 2002

के. एस. वर्मा
संयुक्त निदेशक
एम एस 8सी

वायु शाखा

सं. 439, दिनांक 30 जुलाई 2004--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित
मूल पदोन्नति करते हैं :-

भारतीय वायु सेना
ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में

टी के बासू (11777) प्रशासन, 01 नवम्बर 1996

इनका नाम ग्रुप कैप्टन एस एन वहल (12160) प्रशा. और बी के
शर्मा (10748) प्रशा. (सेवानिवृत्त) के बीच में आयेगा।

संतोष कुमार शुक्ला
उप निदेशक, कार्मिक (अधिकारी)-2बी

सं. 440, दिनांक 2 अगस्त 2004--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नति
मूल रैंक में करते हैं :-

भारतीय वायु सेना
प्रशासनिक शाखा

फ्लाईट लैफ्ट की मूल स्क्वाड्रन लीडर रैंक में

पुरुषोत्तम डी के (22912), सुनील कुमार चौहान (22913), विनीत
हेमराज (22914), दिनांक 17 मार्च 2004।

के आई अहमद (21875) दिनांक, 30 अप्रैल 2003 से।

एच एस बिरदी (21861) दिनांक 16 अक्टूबर 2002 से।

फ्लाईंग अफसर फ्लाईट लैफ्ट मूल रैंक में

आशीष पंडित (25684) 19 जून 2003 से।

दिव्या जोशी (24627) दिनांक 06 जनवरी 2003 से।

आर डी फियालो (25133) दिनांक 20 जून 2002 से।

पंकज वात्स्यायान (25676) दिनांक 19 जून 2003 से।

आर के जोहन (25701), सी प्रदीप पिल्लैय (25702), एस प्रकाश
(25703), बी एम धनंजय (25704), एल के श्रीवास्तव (25705), जे
एस तेहलन (25706), आर अग्रवाल (25707), पुनीत चावला (25708),
भोग एम (25709), जे पी शोभित वर्मा (25710), बिनोद कुमार
(25711), विजय कुमार मोहन (25712), एस पी डेवला (25713), पी
एन चेंगपा (25714), नतेरपाल सिंह यादव (25715), चक्रवर्ती ए
(25716), टी डी कर्नाटक (25717), आर चन्द्रा बालाभावेनी (25718),
कौशिक पंकज (25719), एस एस महेश (25720), ए प्रकाश
(25721), पराग कुलश्रेष्ठ (25722), दिनांक 25 जून 2003 से।

मनप्रीत सिंह बाधवा (25671), एम यागनारमन (25672), अतुल
उप्रेती (25673), सैयद अबीद अली (25674), राकेश कुमार राना
(25675), रोहित दहिया (25677), श्री निवासन वी (25678), बलरु
श्याम प्रसाद (25679), विनायक शर्मा (25680), जेजु पी डी (25681),
राजीव पुरी (25682), अरुण मिश्रा (25683), हितेश पैवार (25685),
दिनांक 19 जून 2003 से।

शिक्षा शाखा

फ्लाईंग आफिसर की मूल फ्लाईट लैफ्ट रैंक में

डी के कौशिक (25686), आर सौन्दराराज डोमिनिक (25687),
कमल विवेक त्यागी (25688), दिनांक 19 जून 2003 से।

विमानिक इन्जिनियरिंग (इलैक्ट्रिकल्स) शाखा

फ्लाईट लैफ्ट की मूल स्क्वाड्रन लीडर रैंक में

एन एस गुलिया (23382), 27 नवम्बर 2003 से।

विमानिक इन्जिनियरिंग (मैकेनिकल्स) शाखा

एम खरे (23099), दिनांक 29 मई 2003 से।

प्रशासनिक शाखा

फ्लाईट लैफ्टनेंट की मूल स्क्वाड्रन लीडर रैंक में

पी के अरोड़ा (22797) डब्ल्यू ई एफ, 18 दिसम्बर 2003।

उड़ान पायलट शाखा

फ्लाईट लैफ्टनेंट की मूल स्क्वाड्रन लीडर रैंक में

ए गुप्ता (21833), पी के अवस्थी (21836), पी पी गोदक (21866),
आर नारायण (21869), दिनांक 13 जून 2002 से।

जे के मेनन (21550), दिनांक 14 दिसम्बर 2001 से।

फ्लाईंग अफसर की मूल फ्लाईट लैफ्टनेंट रैंक में

एस आनन्द (25328), 07 जुलाई 2003 से।

बी पी सिंह (25111), दिनांक 20 जून 2000 से।

उड़ान पायलट शाखा

सिद्धार्थ सिंह (25289), विवेक सिंह (25311), एस खिरबत (25320),
बी सोलंकी (25325), सी आर एस रेड्डी (25329), डी जे भण्डारकर
(25338), दिपाकर झा (25348), दिनांक 19 दिसम्बर 2002 से।

सुश्री अनीता आपटे (25689), सुश्री रेनु शेखावत (25690) और श्रीमती सौमया रथ (25691), दिनांक 19 जून 2003 से।

उड़ान (नेविगेशन) शाखा

फ्लाईंग अफसर की मूल फ्लाईट लैफ्टिनेंट रैंक में

वी एस कुमार (25358), 07 जुलाई 2003 से।

जरी मेथ्यू (25884), अंकुश सहाय (25887), वै अशोक कुमार (25888), दिनांक 18 दिसम्बर 2003 से।

सुभाष राठी (25659), सन्दीपनी पात्रा (25660), जी एस कक्कड़ (25661), सरनजीत एस सन्धू (25662), सत्यजीत आर नम्बीयार (25663), अनुभव कुकरेती (25664), संजीव राव (25665), एम के चौहान (25666), मिहिर सुधीर पाटिल (25667), शशीकान्त शर्मा (25668), सुनील कुमार धीमान (25669), ऋषि काला (25670), 19 जून 2003 से।

प्रशासन शाखा

फ्लाईंग अफसर फ्लाईट लैफ्टिनेंट मूल रैंक में

सचिन मेहता (25658), 19 जून 2003 से।

पारिवारिकी शाखा

फ्लाईंग अफसर फ्लाईट लैफ्टिनेंट मूल रैंक में

एम पी एस सोलंकी (25608), 19 जून 2003 से।

शिक्षा शाखा

फ्लाईंग आफिसर की मूल स्क्वाड्रन लीडर रैंक में

राम किशन यादव (25699), दिनांक 19 जुलाई 2003 से।

फ्लाईंग आफिसर की मूल फ्लाईट लैफ्टिनेंट रैंक में

विमानिक इन्जीनियरिंग (इलैक्ट्रिकल्स) शाखा

नवीन कुमार (25818), शर्मा एस के, दिनांक 27 दिसम्बर 2001 से।

संजीव श्रीवास्तव

स्क्वाड्रन लीडर

डी डी पी ओ 3 (डी)

(थल सेना विभाग)

सं. 441, दिनांक 04 अगस्त 2004--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर थल सेना से निवृत्त करते हैं :-

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(स्थायी कमीशन)

निवृत्ति

एम पी गांधी (डी आर-10217एक्स), 31 अगस्त 2003 (ए एन)

परमजीत सिंह

मेजर जनरल

ए डी जी डी एस

थल सेना शाखा

सं. 442, दिनांक 03 अगस्त, 2004--निम्नलिखित अधिकारियों को जी सी एम द्वारा निम्नलिखित सजा दी जाती है :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर राजीव सूद (आई सी-41434), ए एस सी

(अ) पेंशन हेतु चार (04) वर्ष की सेवा का समपहरण

(ब) कड़ी भर्त्सना की जाए

--07 जुलाई 2003

करम सिंह वर्मा

संयुक्त निदेशक

एम एस 8 सी

(थल सेना विभाग)

शुद्धि पत्र

सं. 443, दिनांक 04 अगस्त 2004--दिनांक 08 नव. 2003 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में शीर्षक "नियमित सेना"-सैनिक दन्त चिकित्सा कोर (अल्पकालीन कमीशन) उपशीर्षक "लैफ्टिनेंट से कैप्टन" रैंक में निम्नलिखित अफसर के नाम के सामने :-

के स्थान पर-मौना भाटिया (डी एस-12079ए), 01 अप्रैल 2003

पढ़ा जाए-मौना भाटिया (डी एस-12079ए), 01 अक्टूबर 2002

के स्थान पर-अरुण तणवर (डी एस-12081एक्स), 02 मई 2003

पढ़ा जाए-अरुण तणवर (डी एस-12081एक्स), 01 नवम्बर 2002

दिनांक 07 जून 2003 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में शीर्षक "नियमित सेना" सैनिक दन्त चिकित्सा कोर (अल्पकालीन कमीशन) उपशीर्षक "लैफ्टिनेंट से कैप्टन" रैंक में निम्नलिखित अफसर के नाम के सामने :-

के स्थान पर-देसाई अजय प्रेमानन्द (डी एस-12068एन), 31 नवम्बर 2002

पढ़ा जाए-देसाई अजय प्रेमानन्द (डी एस-12068एन), 31 मई 2002

के स्थान पर-चिरासिरी चक्रवर्ती (डी एस-12072डब्ल्यू), 28 जनवरी 2003

पढ़ा जाए-चिरासिरी चक्रवर्ती (डी एस-12072डब्ल्यू), 28 जुलाई 2002

दिनांक 05 जनवरी 2002 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में शीर्षक "नियमित सेना" सैनिक दन्त चिकित्सा कोर (अल्पकालीन कमीशन) उपशीर्षक "लैफ्टिनेंट से कैप्टन" रैंक में निम्नलिखित अफसर के नाम के सामने :-

के स्थान पर-पी एच शेख (डी एस-12033एक्स), 01 अगस्त 2001

पढ़ा जाए-पी एच शेख (डी एस-12033एक्स), 01 फरवरी 2001

परमजीत सिंह

मेजर जनरल

ए डी जी डी एस

MINISTRY OF DEFENCE

ARMY BRANCH

New Delhi, the 28th August 2004

No. 432, dated 4th August 2004.—The President is pleased to make the following appointment (DPC) under AI 33/78 as amended vide AI 4/96 :—

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
(DIRECT PERMANENT COMMISSION)

Lt Col to be Col

DR-10308F YC Mishra, 28-07-2003.

(With Notional seniority from 11-12-2000 without effect on pay and allowances).

The President is pleased to make the following appointment for a period of 05 years under AI 15/79 as amended 10/02.

SHORT SERVICE COMMISSION

To be Lt (on Probation)

DS-12114X Parvinder Sharma, 19.02.04

DS-12115A (Ms) Jyotinder Guglani, 24.02.04

DS-12116H Anil Kumar S, 25.02.04

DS-12117L Ashish Kamboj, 25.02.04

DS-12118N Pramod Udagani, 03.03.04

DS-12119W Alok Kumar, 05.03.04

DS-12120L Satisha TS, 05.03.04

DS-12122W Sayed Moulana, 08.03.04

DS-12123Y Ratandeep Singh Ahuja, 08.03.04

PARAMJIT SINGH
Maj. Gen.
Addl. DGDS

RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 433, dated 29th July 2004.—The President is pleased to appoint the following Assistants as Section Officers in the Armed Forces Headquarters Civil Service on the basis of qualifying Limited Departmental Competitive Departmental Examination—2002 w.e.f. 30 April 2004 :—

- (a) Shri M. S. Singh
- (b) Shri V. K. Srivastava
- (c) Shri C. S. Dhasmana

(Authority : A/47959/LDCE-02/SO/CA/P-1/18 Dated 30 April 2004).

SANTOSH DAS GUPTA
Dy. Chief Adm. Officer (A)

NAVY BRANCH

No. 434, dated 3rd August 2004.—The President is pleased to make the following appointment in the Electrical Branch of the Indian Navy for Direct Entry Scheme under the Ministry of Defence Letter No. MF/1822/DES/Vol-IV/03 dated 08 April 2003 from the date shown against each name :—

DIRECT ENTRY SCHEME
(ELECTRICAL BRANCH)

To be sub Lt (on Probation)

Barai Sanjay (51840-T), SSC, 07.01.02

Ahuja Hitanshu (51841-W), SSC, 07.01.02

Ghosh Sudip (51843-Z), SSC, 07.01.02

Paul Rakesh (51844-A), SSC, 07.01.02

Fernandes George Jesuraj (51846-F), SSC, 07.01.02

Bais Anurag Singh (51849-N), SSC, 07.01.02

Raj Vikas (51850-R), SSC, 07.01.02

NS Srinivasan (51851-T), SSC, 07.01.02

Vasu Prajeesh M (51854-Z), SSC, 07.01.02

Balaji Pradheep (51855-A), SSC, 07.01.02

ANIL KUMAR
Cmdr.
JDMPR (R&R)

ARMY BRANCH

No. 435, dated 4th August 2004.—The President is pleased to make the following Promotion (SSC) under AI 15/79 as amended vide AI 10/02 :—

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
(PERMANENT COMMISSION)

Capt to be Major

DS-12004H Armit Ahuja, 27-02-2004

DS-12009F (Ms) Sonali Sahai, 11.03.2004

DS-12011Y (Ms) Bani Khurana, 16-03-2004

PARAMJIT SINGH
Maj. Gen.
Addl. DGDS

No. 436, dated 3rd August 2004.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
(PERMANENT COMMISSION)
(ARMY MEDICAL CORPS)

Brig (& equivalent) to be Maj Gen (& equivalent)

LP Sadhotra (MR-3158N), 14.01.04

(With Notional seniority without effect on pay and pension from 01-10-2003).

Yogendra Singh (MR-2475H), 16.02.04

(With Notional seniority without effect on pay and pension from 01-12-2003).

H K Maini (MR-2282H), 01.07.2003

M. SRIVASTAVA
Brig.
Dy. DGAFMS (P)

No. 437, dated 2nd August 2004.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Maj to be substantive Lt Col (by selection)

IC No., Name, Arm and Subs Date

IC-38538 H Thompson, EME, 31.12.00

IC-38540 JB Gokhale, Sigs, 31.12.00

IC-40277 SK Mishra, EME, 31.12.00

SL-2581, S Victor, SL(RO), 31.12.00

SS SINHA
Dy. Director
DAMS-8A

No. 438, dated 3rd August 2004.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Capt to be Maj

IC No., Name & Arm

46423 GK Rajnish, EME, 27 Oct 2002

(But pay & allowances wef 27 Oct 2003).

IC-51149 Vinay Malhotra, Inf, 13 Jun 2002

IC-49819 Susheel Sharma, MF, 09 Jun 2002

IC-52265 Preet Kanwal Singh Ghumman, AOC, 12 Jun 2003

IC-52367 Eben Jerry Simeon, EME, 11 Dec 2003

IC-52420 Ajay Kumar Sharma, Inf, 11 Dec 2003

IC-54708 Bhanu Mishra, INT, 06 Nov 2002

IC-55332 Arun Kumar Babu, Engrs, 13 May 2003

IC-51551 Shanker Gopinathan, INT, 19 Dec 2002

IC-54742 Sudhir Parashar, Arty, 06 Nov 2003

IC-55334 Vivek Savangouder, EME, 11 May 2004

IC-55519 Shiwesh Kumar, Sigs, 09 May 2004

IC-55527 Shiv Kumar Singh, Sigs, 09 May 2004

IC No., Name & Arm

IC-45964 Sukhjinder Singh, ASC, 24 Apr 1998

IC-54606 Pradeep Kar, Sigs, 12 Jun 1999

IC-56753 Pankaj Duggal, AOC, 07 Dec 2000

IC-56807 Abdul Paul, Arty, 07 Dec 2000

IC-57804 Ankush Kohli, Sigs, 13 Jun 2002

WS No., Name & Arm

WS-00400 Rupika Sengar, Sigs, 07 Sep 2002

WS-00424 Bhagyeshwari Edalli, Engrs, 07 Sep 2002

WS-00428 Joshi Vallari Anna, EME, 07 Sep 2002

K S VERMA
Jt. Dir
MS-8C

(AIR BRANCH)

No. 439, dated 30th July 2004.—The President is pleased to make the following Substantive promotions :—

INDIAN AIR FORCE

ADMN BRANCH

To be Substantive GP Capt

TK Basu (I1777), ADM, 01.11.96

(his name will appear between GP Capts SN Wahal (12160) ADM and BK Sharma (10748) ADM (RETD) in the Gradation List.

SK SHUKLA
Dy. Director of Personnel (Officers) 2(B)

No. 440, dated 2nd August 2004.—The President is pleased to make the following promotions :—

INDIAN AIR FORCE

ADMN. BRANCH

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

Prusty DK (22912), 17 March 2004

Sunil Kumar Chauhan (22913), 17 March 2004

Vineet Hemraj (22914), 17 March 2004

KI Ahmad (21875), 30 April 2003

HS Virdi (21861), 16 October 2002

Fg Offr to be substantive Flt Lt

ADMN. BRANCH

Asheesh Pandit (25684), 19 Jun 2003

Divya Joshi (24627), 06 January 2003

RD Fialho (25133), 20 June 2002

Pankaj Vatsyan (25676), 19 June 2003

RK John (25701), 25 June 2003

C Pradeep Pillai (25702), 25 June 2003

S Prakash (25703), 25 June 2003
 BM Dhananjaya (25704), 25 June 2003
 LK srivastava (25705), 25 June 2003
 JS Tehran (25706), 25 June 2003
 Agaarwal R (25707), 25 June 2003
 Punit Chawla (25708), 25 June 2003
 Bhog M (25709), 25 June 2003
 JP Shobhit Verma (25710), 25 June 2003
 Binod Kumar (25711), 25 June 2003
 Vijay Kumar Mohan (25712), 25 June 2003
 SP Devalla (25713), 25 June 2003
 PN Chegappa (25714), 25 June 2003
 Naterpal Singh Yadav (25715), 25 June 2003
 Chakraborty A (25716), 25 June 2003
 TD Karnatak (25717), 25 June 2003
 R Chandra Vallabhaneni (25718), 25 June 2003
 Kaushik Pankaj (25719), 25 June 2003
 SS Mahesh (25720), 25 June 2003
 Prakash A (25721), 25 June 2003
 Parag Kulshrestha (25722), 25 June 2003
 Manpreet Singh Wadhawan (25671), 19 June 2003
 M Yagnaraman (25672), 19 June 2003
 Atul Upreti (25673), 19 June 2003
 Sayed Abid Ali (25674), 19 June 2003
 Rakesh Kumar Rana (25675), 19 June 2003
 Rohit Dahiya (25677), 19 June 2003
 Srinivasan V (25678), 19 June 2003
 Valluru Syam Prasad (25679), 19 June 2003
 Vinayak Sharma (25680), 19 June 2003
 Joju PD (25681), 19 June 2003
 Rajiv Puri (25682), 19 June 2003
 Arun Mishra (25683), 19 June 2003
 Hitesh Panwar (25685), 19 June 2003

EDN BRANCH

PG OFFR To be Substantive Flt Lt

DK Kaushik (25686), 19 June 2003
 R Sondararaj Dominic (25687), 19 June 2003
 Kamal Vivek Tyagi (25688), 19 June 2003

AE(L) BRANCH

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

NS Gulia (23382), 27 November 2003
 M Khare (23099) wef 29 May 2003

ACCTS BRANCH

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

PK Arora (22797) wef 18 December 2003

F(P) BRANCH

Flt to be Substantive Sqn Ldr

A Gupta (21833), 13 June 2002
 PK Awasthi (21836), 13 June 2002
 PP Modak (21866), 13 June 2002
 R Narain (21869), 13 June 2002
 JK Menon (21550), 14 December 2001

FG Offr to be Substantive Flt Lt

S Anand (25328), 07 July 2003
 VP Singh (25111) wef 20 June 2002.
 Siddart Singh (25289), 19 December 2002
 Vivek Singh (25311), 19 December 2002
 S Khirbat (25320), 19 December 2002
 B Solanki (25325), 19 December 2002
 CRS Reddy (25329), 19 December 2002
 DJ Bhandarkar (25338), 19 December 2002
 Dipankar Jha (25348) wef 2002
 (Ms) Anita Apte (25689), 19 December 2003
 (MS) Renu Shekhawat (25690), 19 June 2003
 (Mrs) Saumya Ratha (25691), 19 June 2003

F(N) BRANCH

Fg Offr to be Substantive Flt Lt

V S Kumar (25358), 07 Jul 2003
 Jerry Mathew (25884), 18 December 2003
 Ankush Sahay (25887), 18 December 2003
 Y Ashok Kumar (25888), 18 December 2003
 Subhash Rathi (25659), 19 June 2003
 Sandipani Patra (25660), 19 June 2003
 GS Kakkar (25661), 19 June 2003
 Saranjeet S Sandhu (25662), 19 June 2003
 Satyajeet R Nambiar (25663), 19 June 2003
 Anubhav Kukreti (25664), 19 June 2003
 Sanjeev Rao (25665), 19 June 2003
 MK Chauhan (25666), 19 June 2003
 Mihir Sudhir Patil (25667), 19 June 2003
 Shahi Kant Sharma (25668), 19 June 2003

Sunil Kumar Dhiman (25669), 19 June 2003

Rishi Kala (25670), 19 June 2003

ADM BRANCH

FG OFFR to be Substantive Flt Lt

Sachin Mehta (25658), 19 June 2003

LGS BRANCH

FG OFFR to be Substantive Flt Lt

MPS Solanki (25608), 19 June 2003

EDN BRANCH

FG OFFR to be Substantive Flt Lt

Ram Kishan Yadav (25699), 19 July 2003.

FG OFFR to be Substantive Flt Lt

AE(L) BRANCH

Navin Kumar (25818), 27 December 2001

Sharma SK (25817), 27 December 2001

SSRIVASTAV
Sqn. Ldr
DDPO-3 (D)

(ARMY BRANCH)

No. 441, dated 4.8.04.—The President is pleased to permit the undermentioned AD Corps officer to retire from Army services on attaining the age of superannuation, wef the date shown against his name:—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

DIRECT PERMANENT COMMISSION

RETIREMENT

DR-10217X Brig MP Gandhi, 31.08.2003 (AN).

PARAMJIT SINGH
Maj Gen
Addl DGDS

(ARMY BRANCH)

No. 442, dated 3.8.2004.—The undermentioned officer is awarded the following punishment by GCM on 07 Jul 03.

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

IC-41434 Rajeev Sood, ASC.

(a) To forfeit four years service for the purpose of pension.

(b) To be severely reprimanded—07 Jul 03

KS VERMA
Jt Dir
MS 8C

(ARMY BRANCH)

CORRIGENDUM

No. 443, Dated 4th August 2004—Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India on 08 Nov 2003 under the heading, "REGULAR ARMY"—ARMY DENTAL CORPS (SHORT SERVICE COMMISSION) sub heading 'Lt to be Capt' against the names of following AD Corps officer :—

FOR—DS-12079A (Ms) Mona Bhatia, 01-04-2003

READ—DS-12079A (Ms) Mona Bhatia, 01-10-2002

FOR—DS-12081X Arun Tanwar, 02-05-2003

READ—DS-12081X Arun Tanwar, 02-11-2002

Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India on 07 Jun 2003 under the heading, "REGULAR ARMY"—ARMY DENTAL CORPS (SHORT SERVICE COMMISSION) sub heading 'Lt to be Cap' against the names of following AD Corps officer :—

FOR—DS-12068N Desai Ajay Premanand, 31-11-2002

READ—DS-12068N Desai Ajay Premanand, 31-05-2002

FOR—DS-12072W (Ms) Chirasree Chakrabarty, 28-01-2003

READ—DS-12072W (Ms) Chirasree Chakrabarty, 28-07-2002

Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India on 05 Jan 2002 under the heading, "REGULAR ARMY"—ARMY DENTAL CORPS (SHORT SERVICE COMMISSION) sub heading 'Lt to be Cap' against the names of following AD Corps officer :—

FOR—DS-12033X PH Shaikh, 01-08-2001

READ—DS-12033X PH Shaikh, 01-02-2001

PARAMJIT SINGH
Maj Gen
Addl DGDS